

प्रेस नोट

सैकेण्डरी(मुक्त विद्यालय /शैक्षिक) फ्रैश कैटेगरी, पूर्ण विषय स्वयंपाठी परीक्षार्थियों से विज्ञान विषय की परीक्षा देने की मांगी गई सहमति ।

भिवानी, 12 जून, 2020 : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय/ शैक्षिक) परीक्षा कोरोना महामारी (कोविड-19)के चलते स्थगित हुई सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय/ शैक्षिक) परीक्षा मार्च-2020 से संबंधित परीक्षार्थियों को विज्ञान विषय का पेपर देने/ न देने की सहमति की सूचना 15 जून, 2020 तक बोर्ड को भेजनी होगी। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह व सचिव श्री राजीव प्रसाद, ह.प्र.से. ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वक्तव्य में आज यहां बताया कि सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय/ शैक्षिक) मार्च-2020 से संबंधित फ्रैश श्रेणी/पूर्ण विषय स्वयंपाठी परीक्षार्थी जिन्होंने चार विषयों की परीक्षा तो दी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जिन विषयों की परीक्षा स्थगित हो गई थी, उन शेष विषयों की परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र ही होना है। उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो ग्यारहवीं कक्षा में विज्ञान संकाय (मैडिकल/ नॉन मैडिकल)से जुड़े संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें विज्ञान विषय की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त जो परीक्षार्थी स्वेच्छा से विज्ञान विषय की परीक्षा देना चाहते हैं वह भी यह परीक्षा दे सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय / शैक्षिक) कम्पार्टमेंट/ सी.टी.पी. /रि-अपीयर /अतिरिक्त विषय आंशिक अंक सुधार व पूर्ण विषय अंक सुधार के बचे हुए शेष विषयों की परीक्षाओं का आयोजन भी शीघ्र ही करवाया जाएगा। परीक्षा की तिथियों की सूचना बोर्ड वैबसाइट/ समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक पूर्व में जारी किया गया ही रहेगा एवं

नया प्रवेश पत्र, परीक्षा केन्द्र, तिथि एवं समय भी बोर्ड वैबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जो परीक्षार्थी विज्ञान विषय की परीक्षा देना चाहते हैं, वे परीक्षार्थी बोर्ड वैबसाइट www.bseh.org.in पर दिये गए लिंक पर 12 जून से 15 जून,2020 तक ऑनलाईन सहमति दे सकते हैं। विज्ञान विषय की परीक्षा न देने वाले परीक्षार्थियों की सहमति प्राप्त नहीं होती है तो रिपोर्ट शून्य मानी जाएगी।